

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +223

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र को स्वीकृति निधि

+223. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य को कुल स्वीकृत और जारी तथा इसके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' तथा 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी योजनाओं के अन्तर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त आदि पर इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है। 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रशाद' योजनाओं के तहत महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, आज की तारीख तक निर्गत राशि और उपयोग की गई राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

महाराष्ट्र को स्वीकृति निधि के संबंध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. +223 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परिपथ	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि
स्वदेश दर्शन						
1.	तटीय परिपथ	2015-16	सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ (शिरोदा बीच, सागरेश्वर, तरकली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), देवगड (फोर्ट और बीच), मितभाव, टोंडावली, मोसेहमद और निवाती फोर्ट) का विकास	19.01	16.43	14.85
2.	आध्यात्मिक परिपथ	2018-19	वाकी - अडासा - धापेवाडा - परादसिंघा - छोटा ताज बाग - तेलखंडी - गीराड का विकास	54.01	24.00	13.03
प्रशाद						
3.		2017-18	त्रियंबकेश्वर का विकास	37.81	8.49	8.49
